

(2) प्रमाणित करता हूँ कि इस बिल में संलग्न वाउचरों में और मेरे कार्यालय में प्रतिभारित वाउचरों में विवरणित सभी वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में लेखा-जोखा दे दिया है ।

यह प्रमाण पत्र उस दशा में आपेक्षित है जब क्रय की गई सामग्रियों और भण्डार के समुचित भण्डार रखे जाने की अपेक्षा की जाये । / Certified that all the articles in the vouchers attached to the bill and in those retained in my office have been accounted for in the stock Register.

This certificate is required when power store accounts of materials and stores purchased are required to be maintained.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि क्रय की गई वस्तुयें, जिनके लिये बिल प्रस्तुत किया गया है । अच्छी हालत में प्राप्त की गई है और यह कि उनकी मात्रायें भी सही हैं, और उनकी क्वालिटी अच्छी है, और विनियमों के अनुसार हैं, और यह कि जिन दरों का संदाय से बचने के लिए सम्बन्धित मांग पत्रों और बीजकों के सामने समुचित प्रविष्टियां या संचय दर्ज कर दिये हैं । / Certified that the purchases billed for have been received in good order, that their quantities are correct and their quality is good and according to specifications that the rates are not excess of the accepted and the market rates and that suitable notes of payment have been recorded against the Indents and Invoice concerned to prevent double payments.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि (क) इस बिल में सम्मिलित सवारी किराये पर व्यय वास्तव में किया गया, यह अपरिहार्य मान के अंदर है, और (ख) सम्बन्धित सरकारी सेवा यात्रा के लिए सामान्य नियमों के अधीन यात्रा भत्ता लेने का हकदार नहीं है और उसे कोई छुट्टी मंजूर नहीं की गई है और वह इस कार्य के जिसके कारण यात्रा करना आवश्यक हुआ, पालन के लिये किसी प्रकार का विशेष पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा । / Certified that (a) the expenditure on conveyance hire included in this bill was actually incurred was unavoidable, and is within the scheduled scale of charges for the conveyance used, and (b) the Government servant concerned to draw traveling allowance under the ordinary rules for the journey and not granted any compensatory leave and does not and will not receive special remuneration for the performance of the duty which necessitate the journey.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में सम्मिलित आकस्मिकताओं को पदों की सरकार द्वारा निहित धन संबंधी या यात्रा संबंधी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है । / Certify that monetary or quantitative limits prescribed by the Government. In respect of items of contingencies included in the bill have not exceeded.

रु..... के लिए पारित किया जाता है ।	चालू वर्ष के लिए विनियोग Appropriation for the current year
Passed for Rs.....	इस बिल को सम्मिलित करते हुए व्यय Expenditure including this bill..... उपाबद्ध सकर्म बिलों की रकमें Amount of bills annexe.....
आदान अधिकारी के हस्ताक्षर और पद का नाम Signature & Designation of Drawing Officer	उपलब्ध अतिशेष Balance Available.....

रु. -----) का संदाय करें ।
Pay Rupees.....)

परीक्षा की गई/Examined

सहायक..... अनुभाग अधिकारी तारीख..... वित्त एवं लेखा अधिकारी
Assistant Section Officer Dated..... Finance & Accounts Officer

पूर्व परीक्षा के लिए प्रस्तुत बिलों के संबंध से पूर्व संपरीक्षा अंकित करने के लिए

Space for pre-audit enfacements In respect of bills submitted for pre-audit

वित्त एवं लेखा अनुभाग के उपयोगार्थ / For use in Finance and Accountant Office

लेखा शीर्ष /Head of Account स्वीकृत रकम/Admitted to रु. /Rs.....
..... आपत्तिगत रकम/Objected to रु. /Rs.....
..... आपत्ति के कारण/Reason for objection

.....
सहायक(वि० व ले)/Asstt. (F&A) अनु.अधि. /S.O वि० एवं लेखा अधि./F&AO